

**जनपद - जालौन, उत्तर प्रदेश**  
**प्रेस नोट सं0 04, दिनांक -07.02.2021**

**थाना एट क्षेत्र के मण्डी समिति के अंदर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में सेंधमारी करके बैंक के अंदर घुसकर तोड़-फोड़ कर व चोरी करने का प्रयास से सम्बंधित अभियुक्त दिलीप कुशवाहा व अशोक उर्फ मटरू कुशवाहा मय आलानकब व तमंचा व चाकू के साथ गिरफ्तार।**

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

1. दिलीप कुशवाहा पुत्र रामगोपाल नि0 ग्रा0 बिनौरा थाना कोटरा जनपद जालौन उम्र 30 वर्ष।
2. अशोक उर्फ मटरू कुशवाहा पुत्र गोविंद दास कुशवाहा नि0 ग्रा0 बिनौरा थाना कोटरा जनपद जालौन उम्र 35 वर्ष।

**बरामदगी का विवरण:-**

1. **अभियुक्त दिलीप के पास से-** 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व 01 अदद पर्स बैंक चोरी का 500/- नगद, एटीएम कार्ड, चेक बुक, आधार कार्ड व कस्बा एट की लक्ष्मी क्लाथ की नकबजनी का 4000/-, 01 अदद मोबाइल फोन एमआई का, 01 अदद मोटर साइकिल न0. UP92S9530 व 01 लोहा रिंगदार सब्बल।
2. **अभियुक्त अशोक उर्फ मटरू के पास से –** 01 अदद चाकू लोहा नाजायज बैंक चोरी का 500/- नकद व लक्ष्मी क्लाथ कस्बा एट के नकबजनी का 3000/- नकद की बरामदगी।

**घटना का विवरण-**

दिनांक 05.02.2021 को वादी श्री प्रशांत त्रिपाठी पुत्र श्री प्रकाश त्रिपाठी नि0 04ई-143 आवास विकास हंसपुरम नौबस्ता कानपुर नगर ( शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, शाखा मण्डी समिति एट ) की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 20/21 धारा 457/380/511/427 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात, मण्डी समिति एट में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में सेंधमारी कर चोरी करने के प्रयास व सीसीटीवी कैमरे व बीएनए (एटीएम)मशीन को क्षतिग्रस्त कर देने के सम्बंध में अभियोग पंजीकृत कराया था।

पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक जालौन के मार्गदर्शन में तथा क्षेत्राधिकारी कोंच के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दि0. 04/05-02-2021 को मण्डी समिति एट के अंदर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में घटित चोरी के प्रयास की घटना के सम्बंध में घटना के अनावरण व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना एट पुलिस एस0ओ0जी0, सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम को लगाया गया था।

**गिरफ्तारी का स्थान , दिनांक व समय –**

आज दि0. 07.02.2021 को प्रा0नि0 एट मय थाने के पुलिस स्टाफ व एसओजी प्रभारी श्री प्रवीण कुमार यादव तथा सर्विलांस प्रभारी कुलभूषण यादव मय टीम के दौरान गस्त तथा भ्रमण व तलाश माल मुलजिमान मुखबिरी के आधार पर उपरोक्त 02 नफर अभियुक्त को कोटरा पुल कस्बा एट के पास से गिरफ्तार करके उनके कब्जे से नाजायज अस्त्र –शस्त्र तथा बैंक चोरी व दि0. 24.01.2021 को लक्ष्मी क्लाथ स्टोर कस्बा एट में घटित नकबजनी की घटना से सम्बंधित चोरी गया माल पैसा व कागजात की बरामदगी की गयी है।

पूछताछ में अभियुक्त दिलीप व अशोक उर्फ मटरू ने बताया की दि0. 04/05-02-2021 की रात्रि बैंक में बाथरूम की दीवार को तोड़कर अंदर जाकर तोड़-फोड़ करके चोरी करने का प्रयास किया था तथा बीएनए (एटीएम) मशीन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। एवं बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसके बाद कैटीन में रखी मेज की दराज से एक पर्स चुराया था जिसमें 1500/- एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, चेक बुक थी जो बरामद हुआ है।

**अभियुक्तगणों का अपराधिक इतिहास:-**

1. दिलीप कुशवाहा पुत्र रामगोपाल कुशवाहा नि0 ग्रा0 बिनौरा थाना कोटरा जनपद जालौन।
  1. मु0अ0सं0 19/21 धारा 457/380/436/411 भादवि
  2. मु0अ0सं0 20/21 धारा 457/380/511/427/411 भादवि
  3. मु0अ0सं0 21/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
2. अशोक उर्फ मटरू कुशवाहा पुत्र गोविंद दास नि0 ग्रा0 बिनौरा थाना कोटरा जनपद जालौन।
  1. मु0अ0सं0 19/21 धारा 457/380/436/411 भादवि
  2. मु0अ0सं0 20/21 धारा 457/380/511/427/411 भादवि
  3. मु0अ0सं0 22/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट

**घटना के अनावरण में सहयोग एवं गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-**

- 1-श्री विनय दिवाकर प्रभारी निरीक्षक थाना एट
- 2-श्री प्रवीण कुमार यादव प्रभारी एसओजी
- 3-श्री कुलभूषण यादव सर्विलांश प्रभारी
- 4-उनि० श्री रवि शंकर मिश्रा थाना एट
- 5-उनि० श्री संजय सिंह पाल थाना एट
- 6-हे०का० 80 निरंजन सिंह एसओजी
- 7-हे०का० 325 भूपेन्द्र सिंह एसओजी

- 8-हे०का० 167 मनोज कुमार सर्विलांश सेल
- 9- का० 1034 शैलेन्द्र सिंह चौहान एसओजी
- 10- का० 1327 जगदीश कुमार सर्विलांश सेल
- 11- का० 1539 रोहित रावत सर्विलांश सेल
- 12- का० 1463 अनुज कुमार थाना एट
- 13- का० 2047 रामू गुर्जर थाना एट
- 14-का० 174 जितेन्द्र कुमार थाना एट